



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

# बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 माघ 1936 (शा०)

(सं० पटना 195) पटना, वृहस्पतिवार, 22 जनवरी 2015

### वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

21 जनवरी 2015

एस०ओ० 10, दिनांक 22 जनवरी 2015—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा—13 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल विभागीय अधिसूचना संख्या—एस० ओ० 43 दिनांक 04 मई, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा—

### संशोधन

1. विभागीय अधिसूचना संख्या—एस० ओ० 43 दिनांक 04 मई, 2006 (समय—समय पर यथा संशोधित) के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या—6 के स्तम्भ (2) की वर्तमान प्रविष्टियाँ निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा—

“पेय स्पिरिट, वाइन या लिकर चाहे आयातित या भारत में विनिर्मित हो यदि ऐसे पेय स्पिरिट, वाइन या लिकर का एक्स—डिस्टिलरी मूल्य आठ सौ पैंतालिस रुपये प्रति केस तक हो।”

2. विभागीय अधिसूचना संख्या—एस० ओ० 43 दिनांक 04 मई, 2006 (समय—समय पर यथा संशोधित) के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या—7 के पश्चात् निम्नलिखित नई क्रम संख्या 8 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, यथा—

“8.	पेय स्पिरिट, वाइन या लिकर चाहे आयातित या भारत में विनिर्मित हो यदि ऐसे पेय स्पिरिट, वाइन या लिकर का एक्स—डिस्टिलरी मूल्य आठ सौ पैंतालिस रुपये प्रति केस से अधिक हो।	बिहार राज्य में विक्रय की किसी श्रृंखला में विक्रय के प्रत्येक चरण पर।”	
-----	---	---	--

3. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं० बिक्री—कर / संशोधन—२० / २०१३(छाया-II)—३९०]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डा० ई०एल०एस०एन० बाला प्रसाद,

वाणिज्य-कर आयुक्त—सह—सचिव।

## 21 जनवरी 2015

एस०ओ० 11, एस०ओ० 10, दिनांक 22 जनवरी 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री-कर / संशोधन-20/2013(छाया-II)—391]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डा० ई०एल०एस०एन० बाला प्रसाद,  
वाणिज्य-कर आयुक्त—सह—सचिव।

*The 21st January 2015*

S.O. 10, dated the 22nd January 2015—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 13 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Departmental Notification number S.O. 43 dated 4<sup>th</sup> May, 2006, namely,-

**Amendments**

1. The present entries of column (2) of serial number 6 of the Table appended to the Departmental Notification number S.O. 43, dated 4<sup>th</sup> May, 2006 (as amended from time to time), shall be substituted by the following :-

"Potable spirit, wine or liquor whether imported from other countries or manufactured in India if the Ex-Distillery Price of such potable spirit, wine or liquor is upto eight hundred and forty-five rupees per case."

2. After serial number 7 of the Table appended to the Departmental Notification number S.O. 43, dated 4<sup>th</sup> May, 2006 (as amended from time to time), the following new serial number 8 and its corresponding entries shall be added, namely-

"8	Potable spirit, wine or liquor whether imported from other countries or manufactured in India if the Ex-Distillery Price of such potable spirit, wine or liquor exceeds eight hundred and forty-five rupees per case	At every point of sale in a series of sales in the State of Bihar."	
----	--	---	--

3. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[No. Bikri-kar/Sansodhan-20/2013(Chaya-II)—390]

By order of the Governor of Bihar,  
DR. E. L. S. N. BALA PRASAD,  
*Commissioner-cum-Secretary,  
Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 195-571+50-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>